

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan,  
छ.शि.म. मार्ग CSM Marg,  
मुम्बई Mumbai - 400001.

No. 44/26/2017/Gen/R&D-I/ 2646

फरवरी February 21, 2020.

**कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM**

विषय : वित्तीय शक्तियों का प्रयोग (पऊवि) नियमावली, 1978 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन।

Subject : Delegation of Powers under the Exercise of Financial Powers (DAE) Rules, 1978.


अधोहस्ताक्षरी को वित्तीय शक्तियों का प्रयोग (पऊवि) नियमावली, 1978 की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि नियम 3.2.1 के अनुसार विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने शीघ्र निर्णय लेने की दृष्टि से कार्य संविदाओं, सामग्रियों/उपस्कर की खरीद के संविदाओं, आकस्मिक और विविध व्यय, हानियों को बट्टे खाते में डालना और सामग्री को अतिरिक्त, पुरानी या अनुपयोगी घोषित करने के लिए व्यय की मंजूरी हेतु विभाग प्रमुख को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

The undersigned is directed to invite a reference to the Exercise of Financial Powers (DAE) Rules, 1978 and to state that in terms of Rule 3.2.1, Competent Authority in the Department approved enhancement of the financial powers delegated to Heads of Department for sanction of expenditure of Works Contracts; Contracts for Purchase of Stores/Equipment; Contingent and Miscellaneous Expenditure; Write off of losses and declaration of Stores as surplus, obsolete or Unserviceable with a view to expediting decision-making.

**A.1. Rule 6.1.3 (Schedule VI-B) (Works Contracts for BARC)**

(Figures in Rupees)

	Director, BARC/Chief Engineer in consultation with Internal Finance	Director, BARC/Chief Engineer in consultation with Tender Committee	Director, BARC on recommendation of council/Board after consideration by Tender Committee
Open Tender/ Limited Tender	Up to 5 crore	More than 5 Crore Up to 8 Crore	More than 8 crore Up to 12 Crore
Single/Nominated/ Negotiated Tender	Up to 2 Crore	More than 2 crore up to 3 Crore	More than 3 Crore up to 5 crore

  
21.02.2020

**A.2. Rule 6.1.3(Schedule VI-A) (Works Contracts for other than BARC)**

(Figures in Rupees)

	HOD*/Chief Engineer in consultation with Internal Finance	HOD*/Chief Engineer in consultation with Tender Committee	HOD on recommendation of council/Board after consideration by Tender Committee
Open Tender/ Limited Tender	Up to 5 crore	More than 5 Crore Up to 8 Crore	More than 8 crore Up to 10 Crore
Single/Nominated/ Negotiated Tender	Up to 1 Crore	More than 1 crore up to 2 Crore	More than 2 crore up to 3 Crore
(* Where Chief Engineer is not available)			

**B.1. Rule 9.2.1 (Schedule VI-B(I) (Contract for Stores & Equipment for BARC)**

(Figures in Rupees)

	Director, BARC on recommendations of Purchase Committee (or) IFA	Director, BARC on recommendations of SPC (or) appropriate committee	Director, BARC on recommendation of council/Board after consideration by Tender Committee
Open Tender	Up to 5 Crore	More than 5 crore up to 10 Crore	More than 10 crore up to 15 Crore
Limited Tender	Up to 3 Crore	More than 3 crore up to 5 Crore	More than 5 crore up to 8 Crore
Single/Nominated/ Negotiated Tender	Up to 2 Crore	More than 2 crore up to 3 Crore	More than 3 crore up to 5 Crore

**B.2. Rule 9.2.1 (Schedule VI-A(I) (Contract for Stores & Equipment for other than BARC)**

(Figures in Rupees)

	HOD on recommendations of Purchase Committee (or) IFA	HOD on recommendations of SPC (or) appropriate committee	HOD on recommendation of council/Board after consideration by Tender Committee
Open Tender	Up to 5 Crore	More than 5 crore up to 10 Crore	More than 10 crore up to 12 Crore
Limited Tender	Up to 3 Crore	More than 3 crore up to 5 Crore	More than 5 crore up to 6 Crore
Single/Nominated/ Negotiated Tender	Up to 1 Crore	More than 1 crore up to 2 Crore	More than 2 crore up to 3 Crore

**C. Rules 6.2 Contingent and Miscellaneous Expenditure (Schedules I & II)**

(Figures in Rupees)

Item of Expenditure	Recurring	Non Recurring
Contingent Expenditure (Schedule I)(on each occasion)	1 Lakh	2 Lakh
Miscellaneous Expenditure (Schedule II) (on each occasion)	1 Lakh	2 Lakh
Hiring of vehicles (on each occasion)	10 Lakh	

*one*  
21.02.2020

**Rule 10 (Write off of Losses) (Schedule – IV)**

(Figures in Rupees)

Item of Expenditure	
Irrecoverable losses of stores or public money (including loss of stamps) due to theft, fraud or negligence	0.5 Lakh
Others	10 Lakh
Deficiencies and depreciation in the value of stores included in the stock and other accounts	0.5 Lakh


**D. Rule 11: Declaration of Stores as surplus, obsolete or Unserviceable**

(Figures in Rupees)

Item of Expenditure	
To declare stores, viz., scientific equipments/apparatus/plant/machinery/equipment as surplus, obsolete or unserviceable (each item)	Rs. 50 Lakh
Disposal of surplus/obsolete/unserviceable/stores and equipment (each item)	Rs. 10 Lakh

इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Secretary, DAE.

  
21.02.2020

[वाई कमलाकर Y. Kamalakar]

अवर सचिव (आरण्डडी), भारत सरकार

Under Secretary(R&D) to Govt. of India

टेलीफोन Phone: (022) 2286 2541

e-mail: usrd@dae.gov.in

पऊवि की संघटित यूनिटों के प्रमुख

Heads of Constituent Units of DAE

विषय : वित्तीय शक्तियों का प्रयोग (पऊवि) नियमावली, 1978 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन।


Subject : Delegation of Powers under the Exercise of Financial Powers (DAE) Rules, 1978.

प्रतिलिपि Copy to:

1. संयुक्त सचिव (अनुसंधान एवं विकास) Jt. Secretary (R&D)
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा) Jt. Secretary (A&A)
3. संयुक्त सचिव (उद्योग एवं खनिज) Jt. Secretary (I&M)
4. संयुक्त सचिव (वित्त) Jt. Secretary (Finance)
5. मुख्य लेखा नियंत्रक Chief Controller of Accounts  
- अनुरोध है कि ईएफपीआर में औपचारिक संशोधन जारी करें with a request to issue formal amendment to EFPRs
6. सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o Secretary, DAE

प्रतिलिपि Copy to:

1. संघटक इकाईयों में सभी वित्त एवं लेखा प्रमुख  
All Heads of Accounts & Finance in Constituent Units
2. संघटक इकाईयों के सभी प्रशासनिक प्रधान  
All Heads of Administration in Constituent Units
3. बजट एवं योजना अधिकारी Budget & Planning Officer
4. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), आईआई डब्ल्यू, पऊवि Jt. Controller (F&A), IAW, DAE
5. पऊवि सचिवालय के सभी अधिकारीगण All Officers in DAE Secretariat

  
21.02.2020

[वाई कमलाकर Y. Kamalakar ]

अवर सचिव (आरण्डडी), भारत सरकार  
Under Secretary(R&D) to Govt. of India  
टेलीफोन Phone: (022) 2286 2541  
e-mail: usrd@dae.gov.in